



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16—सितम्बर 22, 2006 (भाद्रपद 25, 1928)  
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16—SEPTEMBER 22, 2006 (BHADRA 25, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

कोलकाता-700001, दिनांक 25 अगस्त 2006

सं. 2/2006--युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करता है, जो इस प्रकार है:--

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) ये विनियम युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित होगा, जो इस प्रकार है:--

(क) उप विनियम (1) में, खंड (ग) के अंतर्गत, परंतुक के पश्चात् एवं टिप्पणी के पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“परंतुक, जो अधिकारी पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है उसे अगले उच्चतर वेतनमान/अवरोध

वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियों में ऐसी वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियां प्रदान नहीं की जाएगी।”

(ख) उप विनियम (2) में, स्पष्टीकरण के खंड (घ) में टिप्पणी (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, अर्थात्:  
“(iii) जो अधिकारी पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है वह व्यावसायिक अर्हता भुगतान, उपर्युक्त के अनुसार, का पात्र नहीं होगा।”

ए. एस. भट्टाचार्य

महाप्रबंधक

(संसाधन प्रबंधन एवं समन्वय)

टिप्पणी : 1. मूल विनियम के पिछले संशोधनों को राजपत्र में निम्नानुसार प्रकाशित किया गया था :

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	1/1999	06.07.1999
2.	2/1999	21.07.1999
3.	1/2000	17.05.2000
4.	2/2002	26.08.2002
5.	1/2006	17.01.2006

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 10 अगस्त 2006

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के नियम 18 के अंतर्गत पॉवर के द्वारा निर्धारित विनियम 3एनसीए(4)/2/2004-2 के अंतर्गत यह सूचित किया जाता है कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्था के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के भाग 20(1)(सी) के एक्ट 1 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क समय पर न जमा कराने के कारण 1 अक्टूबर, 2004 से निम्नलिखित सदस्यों के नाम रद्द कर दिए

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
1. 017283	श्री कपूर शशी मोहन सू. 87, ग्रेटर कैलाश-1 न्यू दिल्ली-110048	7. 089953	श्री कृष्णसी संजय फाइनेंस मैनेजर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अन्नासागर कैफे बिल्डिंग 17, पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली-110001
2. 060480	श्री प्रलेटिय सदीप कुमार 27/174, विक्रम विश्व 3 फ्लोर, राजपूत नगर, न्यू दिल्ली-110024	8. 091530	श्री दीपक कुमार महाजन जे-38, रिजर्व बैंक अन्नासागर पश्चिम विश्व न्यू दिल्ली-110063
3. 081454	श्री लुनी बलरुत कुमार 105, राकेश दीप 11, कम्प्लेक्स कॉम्प्लैक्स गुरुमेहर अन्नासागर न्यू दिल्ली-110049	9. 092211	श्री कलगीत सिंह 15, आर्य सम्मेलन मंदिर मार्किट आउटसाइड नागोरी गेट हिसार-125001
4. 082370	श्री राकेश कुमार 307, सत्य मैदान ए-1/ए-2, रंजित नगर कॉम्प्लैक्स न्यू दिल्ली-110008	10. 092273	श्री दलीप के. वी. केयर ऑफ अर्नस्ट एंड यंग पी ओ बक्स 1750, पोस्टल कोड 112 रुवी, सत्यनगर ऑफ ओशन
5. 083914	श्री देव राज 39/ए-10, II फ्लोर जवाहर देवी मार्किट, पश्चिम विश्व न्यू दिल्ली-110063	11. 092914	श्री पंकर बर्मन्दा सिनीयर मैनेजर कोरपोरेट ऑडिट ग्रुप भारती टेलीवैक्स लि. ए-30, सार्जुनगढ़ मेहरौली बरारपुर रोड न्यू दिल्ली-110030
6. 086276	श्री गुलाब प्रकाश चंद 113-114, रेडिन्स कॉम्प्लैक्स डबल्यू-121, गुरुपुर दिल्ली-110092	12. 094643	श्री कल्याण ललित महिन्द्रा लिमिटेड टेलेकोम लि. हाराव सेंटर, ऑफ कारवे रोड एरांडकेर, पुणे-411004

क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता
13. 095804	श्री सुनील राम 68-ए, एम.आर.एन. बी.डी. फ्लैट रिवन मन्सरोन, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली-110082	19. 500027	श्री अशोक प्रदीप 299, अशोक एडिशन सेंटर एल.एस.टी. सी.डी. ब्लॉक पीताम्पुर, दिल्ली-110088
14. 096253	श्री गुण संजय ए-205, संस्कृति फ्लैट नं. बी.एच-5, सेंटर-43 गुड्डाई-122015	20. 501447	श्री यशवन्त केशव कुमार ए-138, स्ट्रीट नं. 3 विकास मार्ग, सारपुर दिल्ली-110092
15. 097558	श्री जैन सविता 302/118, सिविल सर्विस न्यू हरिद्वार रोड रुड़की, हरिद्वार	21. 501789	मिस अनुराधा बी. एस. ए 4, 513, स्नेह अपार्ट्स गोवर्धनी ब्लॉक नैशनल गेम्स क्लब कोरामंगला, बंगलौर-560047
16. 099210	श्री रामप्रताप बर्तन बी-89, सेंटर 39 नेहरू	22. 502027	मिस अरोड़ा रिन्क् एस. आर. बटलीनगर एन्ड कं. एफ-1, फर्स्ट फ्लोर द मैट्रो पोल, नियर इन्डियन कॉम्प्लेक्स कुंदगार्ड, पुणे-411001
17. 099929	श्री अजय कुमार 169/20, करोला बग मेन अजयल खान रोड न्यू दिल्ली-110005	23. 502419	श्री पंकज कुमार 730जी, प्रथम फ्लोर 4 मेन, को. जी. गार्डन मुरुगोतल वार्ड बंगलौर-560017
18. 206638	श्री सुखराम श्रीनिवास एच. नं. 32-2-10/5बी, ए.बी. टॉवर्स जय्योके सेंटर मोहलराजपुरम विजयवाड़ा-520010		अशोक हल्दिया सचिव

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2006

संख्या: यू.16/53/99 चि.2 (हैदराबाद) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, हैदराबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने

तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>डॉक्टर का नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>कैन्द का नाम</u>
डॉ.ए.चन्द्रशेखर	3.9.2006 से 2.9.2007	सनथ नगर, बालानगर, जीडीमेटला व बी.बी. नगर

डॉ. कमलेश कालरा  
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2006

सख्या: एन-15/13/13/03/2005-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

राजस्व ग्राम	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	जिला
चकधूरपुर, सड़वाखुर्द, इरादतगंज, गौहानी	अरैल	बारा	इलाहाबाद
दादूपुर, बादलगंज, संरगापुर, धनुहा चकगरीबदास, भडराउमरगंज छाड़ी	अरैल	करछना	इलाहाबाद

एम. सुन्दररामन  
निदेशक (यो. एवं वि.)

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 अगस्त 2006

स. ए-36024/1/2006-स्थापना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एतद्वारा दिनांक 10.8.1985 की अधिसूचना सं. के-14011/13/85- रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड, जिसके द्वारा, विभिन्न कानूनों के अधीन क्रम सं.26 की मद III के अधीन धारा 22 (2) (ए) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष होने के नाते बोर्ड के सदस्य सचिव को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थी। लोकहित को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त अधिसूचना में दिनांक 14 दिसम्बर, 1987, 4 जुलाई, 1991 और 9 जनवरी, 1997 की अधिसूचनाओं के द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सदस्य सचिव की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाए जाने के लिए यह संशोधन किया गया है जिसे दिनांक 24.5.2006 को आयोजित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 29वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था।

यह संशोधन अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन की सूचना की तारीख अर्थात् 9.8.2006 से लागू हुआ माना जाएगा।

विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

मद्	प्रयोजन	कार्यविधि	शर्तें और सीमा
निश्चित अवधि आधार जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी पर इन-हाऊस परामर्शदाता की नियुक्ति	इन-हाऊस परामर्शदाता निम्नलिखित कार्यों में बोर्ड की सहायता करेगा: <ul style="list-style-type: none"> <li>● भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित प्रकार्यात्मक योजनाओं का तैयार करना;</li> <li>● उप-क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने के लिए सहायता;</li> <li>● परियोजना विकल्पों और परियोजना विकास का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण;</li> <li>● इन सीटू गंदी बस्तियों के सुधार जैसी समाजिक अवसंरचना परियोजनाओं को डिजाइन करना;</li> <li>● बोर्ड द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन और</li> <li>● वित्त, प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोजन अथवा विधिक सलाह से संबंधित विशिष्ट तकनीकी कार्य।</li> </ul>	इन-हाऊस परामर्शदाता की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- <ul style="list-style-type: none"> <li>● सदस्य सचिव - अध्यक्ष</li> <li>● संयुक्त सचिव/वित्त सलाहकार - सदस्य अथवा मुख्य नियंत्रक लेखा, शहरी विकास मंत्रालय</li> <li>● शहरी विकास मंत्रालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव अथवा निदेशक - सदस्य</li> <li>● विषय से संबंधित दो विशेषज्ञ - सदस्य सहयोजित किए जाएंगे</li> </ul> <p>परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी पर विचार करने से पहले समिति सर्वप्रथम शिक्षा अहर्ताएं, प्रमाणित निपुणता आदि जैसे मूल आधार अनुमोदित करेगी।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रति इन-हाऊस परामर्शदाता को अधिक से अधिक अदायगी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं की जाएगी।</li> <li>● परामर्शदाता को कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा वाली एक निश्चित शर्तें दी जाएंगी</li> <li>● ऐसे परामर्शदाताओं पर, एक वर्ष में कुल राशि 50 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं की जाएगी।</li> <li>● इसके अतिरिक्त, दिल्ली से बाहर दौरों के लिए, केन्द्रीय सरकार के ग्रुप 'ए' के अधिकारियों पर लागू दर से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अदा किया जाएगा।</li> <li>● परामर्शदाता द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली के अन्दर सरकारी कार्य के लिए क्षेत्र के दौरों के लिए वाहन/टैक्सी की सुविधा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।</li> </ul>

एच. एस. आनन्द

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्**  
**नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2006**

संख्या फा. 47-33/2005- राअशिप/समन्वय- दिनांक 22 जनवरी, 1996 के विनियम संख्या फा. 28-14/95/राअशिप के साथ पठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 20 (3) (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री इकबाल अहमद, निवासी गांव और डाकघर जबरिया भील, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (मध्यप्रदेश) को खंड 20 (3) (ग) के अधीन पश्चिम क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है।

## **II कार्यकाल**

उपर्युक्त नामांकन तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 25.04.2006 से दो वर्ष के लिए गठित पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के मौजूदा कार्यकाल तक अथवा जब तक नई नियुक्ति की जाए, इनमें से जो भी बाद में हो, तक के लिए होगा।

## **III देय भत्ते**

उनको यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान नियमों के अनुसार किया जाएगा।

एल. आर. अग्रवाल  
उप सचिव

## UNITED BANK OF INDIA

Kolkata, the 25th August 2006

**No. 2/2006** - In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 namely :-

1. **Short title and commencement** -

- (1) These regulations may be called the United Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 in regulations 5 -

- (a) in sub-regulation (1), under clause (c), after the proviso and before the Note the following proviso shall be inserted, namely :

"Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered"

- (b) in sub-regulation (2) in clause (d) of the Explanation, after Note (ii) the following Note shall be inserted, namely :

"(iii) An Officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay, as above, if he refuses to accept promotion when offered".

**A. S. BHATTACHARYA**  
**GENERAL MANAGER**  
**(RESOURCES MANAGEMENT & CO-ORDINATION)**

**Note :** The amendments to the Principal regulation were published in the Gazette as under :

Sl. No.	Notification No.	Dated
1.	1/1999	06.07.1999
2.	2/1999	21.07.1999
3.	1/2000	17.05.2000
4.	2/2002	26.08.2002
5.	1/2006	17.01.2006

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 10th August 2006

## (Chartered Accountants)

3NCA(4)/2/2004-2005: In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (c) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 01 October, 2004 on account of non payment of prescribed fees, the names of the following members:

S.No.	MRN	Name & Address	S.No.	MRN	Name & Address
1	017283	MR. KAPOOR SHASHI MOHAN C-87, GREATER KAILASH-1 NEW DELHI-110048	7	089953	MR. KALSI SANJAY FINANCE MANAGER STANDARD CHARTERED BANK ALLAHABAD BANK BUILDING 17, PARLIAMENT STREET NEW DELHI-110001
2	060480	MR. BHALOTIA SANDEEP KUMAR 27/174, VIKRAM VIHAR 3RD FLOOR LAJPAT NAGAR NEW DELHI-110024	8	091530	MR. DEEPAK KUMAR MAHAJAN J-38, RESERVE BANK ENCLAVE PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110063
3	081454	MR. LUGANI BAHUSHRUT KUMAR 105, RAKESH DEEP 11, COMMERCIAL COMPLEX GULMOHAR ENCLAVE NEW DELHI-110049	9	092211	MR. BALJEET SINGH 15, ARYA SAMAJ MANDIR MARKET OUTSIDE NAGORI GATE HISAR-125001
4	082370	MR. RAKESH KUMAR 307, SATYA MANSION A-1, A-2, RANJIT NAGAR COMPLEX NEW DELHI-110008	10	092273	MR. DILIP K.V. C/O ERNST & YOUNG P.O. BOX 1750, POSTAL CODE 112 RUWI, SULTANATE OF OMAN
5	083914	MR. DESH RAJ 39/A-10, IIND FLOOR JWALA HERI MARKET, PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110063	11	092914	MR. PANWAR DHARMENDRA SR.MANAGER-CORPORATE AUDIT GROUP BHARTI TELEVENTURES LTD A-30, SAIDULAJAB MEHRAULI BADARPUR ROAD NEW DELHI-110030
6	086276	MR. GUPTA PRAKASH CHAND 113-114, ROHINI COMPLEX WA-121 SHAKARPUR DELHI-110092	12	094643	MR. KATYAL LALIT MAHINDRA BRITISH TELECOM LTD SHARDA CENTRE, OFF. KARVE ROAD ERANDWANE, PUNE-411004



- |  |   |
|--|---|
| <p>13 095804 MR. SHARMA SITA RAM<br/>68-A, MIG DDA FLAT<br/>SHIVAM ENCLAVE, JHILMIL<br/>DELHI-110032</p> <p>14 096253 MR. GUPTA SANJAY<br/>A-205, SANSKRITI<br/>PLOT NO. GH-5, SECTOR-43<br/>GURGAON-122015</p> <p>15 097558 MR. JAIN SACHIN<br/>302/1C, CIVIL LINES<br/>NEW HARIDWAR ROAD<br/>ROORKEE, HARIDWAR</p> <p>16 099210 MR. RAJPUT JATIN<br/>B-89, SECTOR 39<br/>NOIDA</p> <p>17 099929 MR. AJAY KUMAR<br/>16A/20, KAROL BAGH<br/>MAIN AJMAL KHAN ROAD<br/>NEW DELHI-110005</p> <p>18 206638 MR. SURAVARAPU SRINIVAS<br/>H.NO. 32-2-10/5B,<br/>A.B. TOWERS<br/>JAMMICHETTU CENTRE<br/>MOGALRAJAPURAM<br/>VIJAYAWADA-520010</p> | <p>19 500027 MR. AGGARWAL PARVEEN<br/>259, AGGARWAL SHOPPING CENTRE<br/>LSC, CD BLOCK<br/>PITAMPURA, DELHI-110088</p> <p>20 501447 MR. YADAV BIKESH KUMAR<br/>A-138, STREET NO.3<br/>VIKAS MARG, SHAKARPUR<br/>DELHI-110092</p> <p>21 501789 MS. ANURADHA B S.<br/>A4, 513, SNEHA APTS<br/>GODAVARI BLOCK<br/>NATIONAL GAMES VILLAGE<br/>KORAMANGALA<br/>BANGALORE-560047</p> <p>22 502027 MS. ARORA RINKU<br/>S.R. BATLIBDI &amp; CO<br/>F-1, FIRST FLOOR<br/>THE METRO POLE, NEAR INDEX COMPLEX<br/>BUND GARDEN, PUNE-411001</p> <p>23 502419 MR. PANKAJ KUMAR<br/>730G, GROUND FLOOR<br/>4TH MAIN, K.G. GARDEN<br/>MURUGESPALYA<br/>BANGALORE-560017</p> |
|--|---|
- (DR. ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 9th August 2006

No.U-16/53/99/Med.III/(A.P.) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be

allocated by State Medical Commissioner, Hyderabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
1. A.Chandra Shekhar	3.9.2006 to 2.9.2007	Sanathnagar, Balanagar, Jeedimetla and Bibi Nagar

**DR. KAMLESH KALRA**  
Medical Commissioner

New Delhi, the 25th August 2006

No. N-15/13/13/03/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1<sup>st</sup> September, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely

<b>Revenue Village</b>	<b>Revenue Pargana</b>	<b>Tehsil</b>	<b>District</b>
CHAKGHURPUR, SADAWAKHURD, IRADATGANJ, GAUHANI	ARRAIL	BARA	ALLAHABAD
DADUPUR, BADALGANJ, SANRAGAPUR, DHANUHA, CHAKGARIBDAS, BHADRAUMARGANJ, DADI	ARRAIL	KARCHANA	ALLAHABAD

**M. SUNDARARAMAN**  
**DIRECTOR (P&D)**

## NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

New Delhi-110003, the 23rd August 2006

No. A-36024/1/2006-Estt —

In exercise of the powers conferred by Section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), National Capital Region Planning Board hereby further amends Notification No. K- 14011/13/85-NCRPB, dated 10.8.1985 whereby financial powers were delegated to the Member Secretary of the Board under Section 22(2) (a) under item III serial No. 26, by virtue of his being Head of the Department under various Rules. The above said notification has been amended from time to time in the exigencies of public interest by Notifications 14<sup>th</sup> December, 1987, 4<sup>th</sup> July, 1991 and 9<sup>th</sup> January, 1997 leading to this amendment for enhancing the financial powers of the Member Secretary, which has been approved in the 29<sup>th</sup> Meeting of the National Capital Region Planning Board, held on 24.5.2006.

This Amendment shall be deemed to have come into force with effect from the date of intimation of approval by the Chairman, National Capital Region Planning Board i.e. 9.8.2006.

The following shall be substituted against the existing provisions:-

Item	Purpose	Procedure	Terms & Limit
Appointment of in-house consultants on fixed tenure basis not exceeding one year.	<p>The in-house consultants will assist the Board in the following tasks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparation of Functional Plans relating to core areas of physical and social infrastructure ;</li> <li>- Support for preparation of Sub-Regional Plans;</li> <li>- Techno-economic feasibility analysis of project options and Project Development;</li> <li>- Design of social infrastructure projects like in-situ upgradation of slums;</li> <li>- Impact assessment of the projects financed by the Board &amp;</li> <li>- Specific technical tasks pertaining to finance, administration, IT applications or legal advice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In-house consultants will be appointed by a Committee consisting of the following: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Member Secretary - Chairman</li> <li>- Joint Secretary/FA or NCR Planning Board - Member</li> <li>- Chief Controller of Accounts, M/o. Urban Development</li> <li>- Joint Secretary or Director -Member Dealing with NCRPB in M/o. Urban Development</li> <li>- Two subject matter - Members Specialists to be co-opted.</li> </ul> </li> </ul> <p>The Committee, in the first instance, will also approve basic criteria such as educational qualifications, proven expertise etc. before considering any candidate for appointment as consultant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The maximum payment per in-house consultant will not exceed Rs. 10 lakhs.</li> <li>- The Consultant will be given firm TORs with a time frame for delivery.</li> <li>- The total amount on such consultants will not exceed Rs. 50 lakhs in a year.</li> <li>- In addition, they will be paid TA/DA as applicable to Group 'A' officers of the Central Govt. for tours outside Delhi.</li> <li>- The Board will provide the facility of a vehicle/taxi for official field visits by the consultants within the NCT of Delhi.</li> </ul>

**H.S. Anand**  
**Member Secretary,**  
**National Capital Region Planning Board**

**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION**

New Delhi, the 23rd August 2006

No. F. 47-33/2005-NCTE/CDN – In exercise of the powers conferred under Section 20(3) (c) of the National Council for Teacher Education Act 1993 read with Regulation No. F.28-14/95/NCTE dated 22 January, 1996, Shri Iqbal Ahmad r/o Village & P.O. Jabaria Bheel, Tehsil Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.) has been nominated under Section 20(3) (c) as member of the Western Regional Committee.

**II Term of Office**

The above nomination shall be from immediate effect and upto the current tenure of the Western Regional committee constituted for two years w.e.f. 25.04.2006 or till such time fresh appointment is made whichever is later.

**IV Allowances Payable**

Traveling & Daily Allowances shall be paid to him as per Council's Rules.

**L. R. AGGARWAL**  
Deputy Secretary